



गौरवशाली भारत

नई दिल्ली से प्रकाशित

RNI No .DELHIN/2011/38334

वर्ष : 12

अंक : 129

पृष्ठ : 08

नई दिल्ली

मंगलवार 22 नवंबर 2022

मूल्य : 1.50/-

मुख्य अपडेट

पेज 3

प्राधिकरण की ओर से 75 बिल्डर परियोजनाओं को जारी हो रहे रिकवरी नोटिस, 15 दिन का दिया समय, 9 हजार करोड़ रुपए हे वकाया

पेज 5

कोआपरेटिव बैंक फ्राड में 50 हजार का इनामी गिरफ्तार, पूर्व बैंक मैनेजर की मदद से किया था खेल; अन्य की तलाश में

पेज 7

इंडोनेशिया में भूकंप, 56 की मौत 700 से ज्यादा लोग घायल, दक्षिण में लोगों ने इमारतें खाली कीं

दिल्ली एयरपोर्ट से 5 लाख का इनामी खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार

टारगेट किलिंग और धमाकों में रहा शामिल

एजेंसी

नई दिल्ली। देश का मोस्ट वांटेड आतंकी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया साल 2019 से फरार था। वह 18 नवंबर को बैंकाक से लौटा तो उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वह बम्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार को कहा कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ

खानपुरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बम्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा रहा है। उस पर 5 लाख रुपये का इनाम था। खानपुरिया 2019 से फरार था। वह 18 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस वक गिरफ्तार किया गया, जब बैंकाक से लौटा था।

खानपुरिया पंजाब में कई टारगेटेड किलिंग को अंजाम देने में शामिल रहा है। कई आतंकवादी मामलों में वह वांटेड था। वह नब्बे के दशक में कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली में एक बम विस्फोट मामले और अन्य राज्यों में ग्रेनेड हमलों में भी शामिल था। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े प्रसिद्धियों, पंजाब में पुलिस और सुरक्षा से जुड़े लोगों को निशाना

बनाकर भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश के पीछे खानपुरिया को ही मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। एनआईए ने कहा कि खानपुरिया पंजाब समेत पूरे देश में आतंक पैदा करने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी निशाना बना रहा था। इसके लिए खानपुरिया ने कुछ ठिकानों की टोह भी ली थी। शुरू में 30 मई, 2019 को पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में खानपुरिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बाद में 27 जून, 2019 को एनआईए ने भी दर्ज किया। खानपुरिया ने अपने विदेशी आकाओं के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमला करने की योजना बनाई और साजिश रची। फिर बाद में भारत से भागने में कामयाब रहा।

लातेहार में मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर

सर्च अभियान के दौरान दो इंसास और एक एसएलआर राइफल बरामद

लातेहार। लातेहार के बेंदी जंगल में सुरक्षा बल और प्रतिबंधित संगठन जेजे एमपी के नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए हैं। सर्च अभियान में पुलिस को 3 राइफल भी मिले हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच, शाम के तकरवीर चार बजे यह मुठभेड़ शुरू हुई है। लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने तीन नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है।

अभी भी जारी है सर्च अभियान

पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही थी, तभी अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों को मुहताब्द जवाब दिया है और तीन नक्सलियों को मार गिराया।



नक्सलियों के पास से दो इंसास और एक एसएलआर राइफल भी बरामद किए हैं। इलाके में अब भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि जेजेएमपी की एक टीम

पप्पू लोहरा के नेतृत्व में लातेहार, मनिाका थाना क्षेत्र में काम करती है। हमें सूचना थी कि वह बेंदी जंगल में सक्रिय हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं।

कुछ लोगों से लेवी वसूलने आए थे। हमने दो टीम का गठन किया है।

नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेज

पूरे राज्य में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। नक्सलियों के कई ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने भारी हथियार बरामद किए हैं। तीन सप्ताह पहले ही लातेहार में नक्सली संगठन टोएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमिटी) के 5 लाख के इनामी कमांडर विराज गंडू उर्फ राकेश सहित 3 हार्डकोर नक्सलियों गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही थी। पुलिस को इस सर्च अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सूत्रों के अनुसार तीन नक्सली ढेर हुए तो कुछ मौके से भागने में सफल रहे हैं।

हम जैसे ही पहुंचे हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तीन उग्रवादी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। इस इलाके में अभी कुछ और उग्रवादी हैं जो छिपे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। डीआईजी राजकुमार लकड़ू ने बताया, हमें सूचना थी हमने

त्वरित कार्रवाई की है और हमें सफलता मिली। हमारी टीम ट्रैक कर रही थी, उनका पीछा करते हुए यह सफलता मिली है। अबतक किसी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस को नक्सलियों के पास से हथियार भी मिले हैं।

पिता ही निकला आयुषी का हत्यारा

मर्जी से शादी की, पेरेंट्स को करती थी जलील; गोली मारकर सूटकेस में फेंकी लाश



मथुरा। मथुरा के आयुषी चौधरी हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस के मुताबिक उसे पिता ने ही गोली मारी थी। वारदात में मां ने भी साथ दिया था। हत्या दिल्ली के बदरपुर स्थित घर पर की गई। बाद में लाश को लाल सूटकेस में पैक करके 150 किलोमीटर दूर मथुरा जिले के राया

इलाके में यमुना एक्सप्रेस-वे पर फेंक दिया गया था। 18 नवंबर को आयुषी की लाश बरामद हुई थी।

दो दिन बाद मां और भाई ने आकर की शिनाख्त

रविवार को मथुरा में पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंची आयुषी की मां ब्रजवाला और

100 पुलिस कर्मियों की टीम ने 300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले

सूटकेस में मिली लाश का खुलासा मथुरा पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। पुलिस ने लड़की की शिनाख्त के लिए 100 पुलिस कर्मियों की 14 टीमें बनाई थीं। पुलिस ने घटनास्थल से लेकर टोल प्लाजा तक करीब 300 सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग खंगाली। इसके बाद भी लड़की की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। तभी पुलिस को एक कॉल आई। इसमें बताया गया कि बदरपुर के मोड़बंद की रहने वाली लड़की दो दिन से गायब है। यह सूचना ही पुलिस के लिए काफी थी। इसके आधार पर पुलिस की एक टीम लड़की के घर पहुंची।

भाई आयुष ने शव की शिनाख्त की। शिनाख्त के बाद परिवार बिना किसी से बात किए सीधे पुलिस के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गया। मौडिया ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन मां और भाई कुछ भी नहीं बोले। दिल्ली से मथुरा पुलिस के पास एक कॉल आई थी।

इसमें सूटकेस में मिली मृत लड़की के परिवार के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस दावा कर रही है कि मुखबिर ने यह कॉल किया था। हालांकि एक बात यह भी सामने आ रही है कि आयुषी के ही किसी परिचित ने मथुरा पुलिस को फोन करके जानकारी दी।

कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र पर साधा निशाना

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर एक बार फिर हमला किया और उनके अधिकार छीने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा मोदी सरकार की नीति किसानों के अधिकारों को छीने की है। इस सरकार ने पीएच-किसान योजना के माध्यम से 14.5 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का लंबा दावा किया है। सच्चाई यह है कि क्रिस्त दर क्रिस्त, लाभार्थी किसानों की संख्या घट रही है। उन्होंने आगे कहा, मोदी जी। किसानों का हक छीनकर आन किसानों का फायदा उठा रहे हैं। एक आरटीआई को प्राप्त जवाब के मुताबिक कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि पीएच-किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या फरवरी 2019 में पहली क्रिस्त के बाद से मई-जून 2022 में 11वीं क्रिस्त तक 11.84 करोड़ से घटकर 3.87 करोड़ रह गयी है।

ओडिशा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, तीन लोगों की मौत

नयी दिल्ली। भुवनेश्वर। ओडिशा में पूर्व तटीय रेलवे (ईसीओआर) के कोरई स्टेशन पर सोमवार को मालगाड़ी के पटरी से उतरने की घटना के उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये गये हैं। दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी और चार अन्य घायल हुए हैं वहीं ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने रेलवे आयुक्त (संरक्ष) के स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि खुर्दा रोड मंडल के भद्रक-कपिलास खंड में कोरई स्टेशन पर आज सुबह 06.44 बजे मालगाड़ी के कम से कम आठ वैगन बेटरी हो गये। वैगनों के गिरने से रेलवे स्टेशन को इमारत को नुकसान पहुंचा और दोनों ओर के ट्रेक पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। स्टेशन की इमारत के क्षतिग्रस्त होने की वजह से कटक से इलाज के लिए ट्रेन में सवार होने के लिए रेलवे स्टेशन पर इंतजार



कर रही एक महिला और उसकी बेटी तथा एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गयी।

ईसीओआर के सूत्रों ने कहा कि स्टेशन पर इंतजार कर रहे चार अन्य लोग भी घायल हो गये। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है और 10 लाख रुपये की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना

में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच लाख रुपये, गंधीर रूप से घायलों को एक लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने प्रशासन को बचाव कार्यों में

घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश

● ईसीओआर के सूत्रों ने कहा कि स्टेशन पर इंतजार कर रहे चार अन्य लोग भी घायल हो गये। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेजी लाने और घायल व्यक्तियों के लिए पर्याप्त उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मलिक को घटनास्थल का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा था। इस बीच ट्रेन सेवाओं की शीघ्र बहाली और राहत कार्यों को निगरानी के लिए ईसीओआर के महाप्रबंधक अन्य प्रमुख विभागों के प्रमुखों के साथ दुर्घटनास्थल पर पहुंचे।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में पटरी से उतरे सभी आठ वैगनों को रेलवे ट्रेक से हटा दिया गया

है और रात तक ट्रेक को बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम जारी है। दुर्घटना के कारण 19 ट्रेनों रद्द कर दी गयीं। वहीं छह ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करने के साथ ही 20 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है।

उन्होंने बताया कि हरिदासपुर स्टेशन पर फंसे 300 यात्रियों में से लंबी दूरी के 210 यात्रियों को उनकी आगे की यात्रा के लिए 18046 हैदराबाद-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में बिठाया गया। इसके अलावा लगभग 45 स्थानीय यात्रियों को उनके विभिन्न गंतव्यों के लिए मुफ्त सड़क परिवहन प्रदान किया गया।

आतंकी रिंदा और संघेड़ा की मौत पर सस्पेंस बढ़ा

पंजाब डीजीपी गौरव यादव बोले- मीडिया से ही पता चला, ऑफिशियल जानकारी नहीं

एजेंसी

अमृतसर। पाकिस्तान में मारे गए आतंकी हरखिंदर सिंह रिंदा और इटली में मारे गए हैप्पी संघेड़ा पर सस्पेंस अभी भी जारी है। तरनतारन में पहुंचे डीजीपी गौरव यादव ने इनकी मौत से इनकार तो नहीं किया, लेकिन मरने की ऑफिशियल जानकारी उन तक पहुंचने की बात कही है। वहीं उन्होंने युवाओं के लिए हर साल पुलिस में भर्ती का संदेश दिया।

गौरव यादव ने बताया कि दोनों आतंकीयों रिंदा और संघेड़ा के मरने की इनपुट उन्हें मीडिया से ही प्राप्त हुई है। लेकिन इसकी ऑफिशियल जानकारी उन तक नहीं पहुंची है। वहीं उन्होंने विदेशों में जाकर छिपे आतंकी

व गैंगस्टर्स को भी चेतावनी दी है। गौरव यादव ने कहा कि सभी के खिलाफ रेड कॉर्नर जारी करने की तैयारियां चल रही हैं। जल्द ही सभी प्रोसेस पूरे होने के बाद आरोपियों को पंजाब लाकर पूछताछ की जाएगी।

दर साल होगी पुलिस में भर्ती

डीजीपी गौरव यादव ने संदेश दिया कि युवाओं को अब गैंगस्टर्स की तरफ रुख करने की जरूरत नहीं है। नशे से दूर रहते हुए सभी युवा अब अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। पंजाब पुलिस जो पहले हर पांच साल में एक बार भर्ती करती थी, अब यह भर्ती हर साल हुआ करेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी घोषणा कर चुके हैं।

गैंगस्टर्स का हथ बुरा ही होता है

गौरव यादव ने कहा कि गैंगस्टर्स का हथ हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए युवाओं को उस तरफ नहीं जाना चाहिए। युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और जा रहे हैं।

अमृतपाल के लिए भी सभी नियम लागू होते हैं। उसे भी अपने विचार रखने का पूरा हक है। धर्म प्रचार का उसे पूरा हक है। अगर वह नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।

श्रद्धा हत्या

डेन्टिस्ट पता लगाएंगे ये श्रद्धा का है; पुलिस को आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मिली

श्रद्धा के टुकड़े तलाश रही पुलिस को मिला इंसानी जबड़ा

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के श्रद्धा बालकर मर्डर केस में श्रद्धा की लाश के टुकड़े ढूंढने के दौरान दिल्ली पुलिस को एक इंसानी जबड़ा मिला है। यह जबड़ा श्रद्धा का है या नहीं, ये पता लगाने के लिए एक डेन्टिस्ट की मदद ली जा रही है।

वहीं, अब तक पुलिस ने जितने मानव अंग बरामद किए हैं, उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया है।

एजेंसी के मुताबिक, जबड़े की जांच कर रहे डेन्टिस्ट ने बताया,

'पुलिस मेरे पास एक जबड़े का फोटो लेकर आई थी, जो उन्हें जांच के दौरान मिला। मैंने पुलिस से कहा कि मुंबई में जिस डॉक्टर ने श्रद्धा का रूट-केनाल ट्रीटमेंट किया था, उससे श्रद्धा के जबड़े का एक्स-रे मांगिए। बिना एक्स-रे के कुछ भी कह पाना मुश्किल है।

आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मिली

पुलिस को आरोपी आफताब के पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट की अनुमति मिल गई है। इसमें व्यक्ति की



धड़कन, नब्ब, सांस लेने की प्रक्रिया को नोट किया जाता है और उससे सवाल पूछे जाते हैं। झूठा जवाब देने पर व्यक्ति की धड़कन, नब्ब और सांस अनियमित

हो जाती हैं, इससे उसके जवाबों को सही और गलत माना जाता है।

श्रद्धा मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर श्रद्धा मर्डर केस की जांच तालाब में फेंका था। इस जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस रविवार शाम छतरपुर जिले के मैदान गढ़ी पहुंची और यहां मौजूद एक तालाब खाली करवाने का काम शुरू किया गया। इसके अलावा गोताखोरों को भी बुलाया गया। हालांकि अभी तक श्रद्धा का सिर नहीं मिल पाया है।



शार्ट न्यूज

योगी आज यूनेस्को इंडियन-अफीकन हैकार्थॉन का शुभारंभ करेंगे

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर यात्री आज के दिन गौतमबुद्ध नगर विश्वविद्यालय (जीबीयू) में आयोजित होने वाले यूनेस्को इंडियन-अफीकन हैकार्थॉन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान भी शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक, हैकार्थॉन के शुभारंभ के बाद योगी गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। जीबीयू में 22 से 25 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस हैकार्थॉन में 21 अफ्रीकी देशों के छात्रों सहित कुल 371 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि मुख्यमंत्री का मंगलवार को हैकार्थॉन का शुभारंभ करने का कार्यक्रम है। हालांकि, उन्होंने कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री के दौरे का विस्तृत कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

सड़क हादसों में छह लोगों की मौत

नोएडा। विभिन्न जगहों पर हुए सड़क हादसों में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस प्रकाश पंकज कुमार ने बताया कि थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के सेक्टर 57 के पास रविकार को एक अज्ञात डंपर चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में बाइक सवार अभिजीत विश्वकर्मा की मौत हो गयी। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि जेवर थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में अनीषा (64) नामक महिला की मौत हो गयी। प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा अलग-अलग छह अन्य हादसों में चार अन्य लोगों की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि मरने वालों की पहचान सौरव कौशिक (27), जय सिंह चौहान, अमित भटनागर और जवाहर लाल यादव (57) के रूप में की गयी है। प्रवक्ता ने बताया कि थाना बिसरख क्षेत्र के गांव मिलक लच्छी में रहने वाली एक महिला ने कथित रूप से मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

सीएसआर अंतर्गत ग्राम खंगोड़ा में आयोजित नैडिकल कैम्प

ग्रेटर नोएडा। दादरी एनटीपीसी द्वारा सोमवार को खंगोड़ा ग्राम में अपने नैगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत समीपवर्ती ग्रामवासियों को मैडीकल सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित मैडीकल कैम्प में 240 महिलाएं एवं पुरुष ग्रामवासियों ने लाभ उठाया। इस मैडिकल शिविर में डा. कल्पना और डा. पंकज ने ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें नि:शुल्क दवाईयां दीं। मैडीकल शिविर में मरीजों के ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, हेमोग्लोबिन व शुगर की नि:शुल्क जांच की व्यवस्था भी की। पिछले दिनों में समीपवर्ती ग्राम सीधीपुर, ऊंचा अमीरपुर एवं ततारपुर में भी हेपेटाइटिस मैडिकल शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 500 लोगों ने भाग लिया था। अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत एनटीपीसी दादरी ने 05 गांवों में ओपन जिम की व्यवस्था कौशल एवं स्वस्थ के लिए की। प्रभावित ग्रामों में स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने हेतु अंतरराष्ट्रीय हृदय दिवस पर स्वास्थ्य ह्रदय सम्बन्धन लैकर खंगोड़ा ग्राम में आयोजित किया। एनटीपीसी दादरी कौशल विकास के लिए व्यवसाहिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

पुलिस ने वाछित गैंगस्टर को किया गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वाछित चल रहे एक आरोपी मुन्ना मेट्रो को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना सेक्टर-58 से गैंगस्टर है। मुन्ना मेट्रो को सेक्टर-35 मोरना बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है। वह मूल रूप से मुन्नादाबाद का रहने वाला है। एडीसीपी ने बताया कि मुन्ना मेट्रो व उसके साथियों के खिलाफ 16 जून 2022 को 495/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना सेक्टर 58 में मुकदमा दायर किया गया था। यह गैंग अपने एगो आराम के लिए दिल्ली नोएडा व एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। वाहनों और उनके पार्ट्स को बेचकर पैसे कमाते थे। मुन्ना मेट्रो गैंग का लीडर बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। साथ ही कई स्थानों पर दबिश भी दी गई। लेकिन ये फरार हो जाता था। सोमवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर मोरना बस अड्डे से इसे गिरफ्तार किया गया। ये शेरछ ओड़ुने की फिकराम में था।

राष्ट्रीय ओपन शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

दादरी। गांव दुजाना के श्री गांधी इंटर कॉलेज में स्वर्गीय कालूराम बाल्मीकि शूटिंग बॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे नागर क्लब दुजाना द्वारा कालूराम बाल्मीकि की स्मृति में राष्ट्रीय ओपन शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के परिणाम देर रात आए प्रतियोगिता के मुख्य हिरों मैन ऑफ द मैच शूटिंग बॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी मित्तल नागर रहे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर मालेगांव टीम रही मालेगांव टीम ने टीम ने 15=10, 15=12 जामनेर महाराष्ट्र को शिकस्त दी। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर जामनेर महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर नागर क्लब दुजाना मित्तल, उत्तर प्रदेश रही एवं चौथा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ



प्रतियोगिता में 8 प्रदेशों की 23 टीमों ने हिस्सा लिया। जिनके बीच 68 मैच खेले गए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आई टीम को 751000 एवं ट्राफी प्रथम स्थान पर आई टीम को रु 310000 एवं ट्राफी एवं तृतीय स्थान पर आई टीम को रु 31000 एवं ट्राफी का प्राइज दिया गया। प्रतियोगिता का आयोजन दो दिवसीय रहा। प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण समारोह के दिन गजराज नागर वरिष्ठ सदस्य समाजवादी पार्टी पूर्व चेयरमैन पति, राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी एवं चेतना मंच के संपादक आर के रघुवंशी ने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा

बढ़ाई। श्री गांधी इंटर कॉलेज को तीन प्रथममंत्रियों के आगमन के लिए एी जाना जाता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेई श्री गांधी इंटर कॉलेज दुजाना में आ चुके हैं। स्वर्गीय कालूराम बाल्मीकि की याद में हुए इस शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे नागर क्लब आयोजन समिति के सदस्य जितेंद्र नागर ने बताया कि यह प्रतियोगिता क्लब के होनहार खिलाड़ी रहे स्वर्गीय कालूराम की याद में इस बहुरे पतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड राजस्थान मध्य प्रदेश पंजाब सहित 8 प्रदेशों की 25 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में आई टीमों के बीच कुल 68 मैच खेले गए। कार्यक्रम में जितेंद्र नागर बाबा, ओमवीर सिंह आर्य एडवोकेट संपादक दैनिक प्यूचर लाइन टाइम्स राष्ट्रवादी हिंदी समाचार पत्र, संजीव नागर शाहजी, ईश्वर शर्मा, मुकेश नागर एडवोकेट जिला उपाध्यक्ष भाजपा, मा. अजीत नागर, हरेंद्र नागर प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग भाजपा, अनिल नागर बाबूजी, राजकुमार आर्य एडवोकेट एवं समस्त ग्राम वासियों का विशेष सहयोग रहा। स्वर्गीय कालूराम बाल्मीकि राष्ट्रीय ओपन शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में मीडिया पार्टनर दैनिक प्यूचर लाइन टाइम्स राष्ट्रवादी हिंदी समाचार पत्र।

स्पा सेंटर की आड़ में हो रहा था देह व्यापार

दिल्ली पुलिस के छापे में 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के पहाड़गांज इलाके में एक स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार और क्लब में अश्लील डांस कराने का मामला सामने आया है। मध्य जिला को स्पेशल स्टाफ टीम ने दोनों जगहों पर छापा मारकर कार्रवाई की। स्पा सेंटर से दो महिलाओं समेत तीन लोगों को पकड़ा है। दोनों घटनाओं को लेकर पहाड़गांज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि पहाड़गांज इलाके में चल रहे एक स्पा में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। इस पर दिल्ली पुलिस के एक हवलदार को दो हजारा रुपये देकर नकली ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर में भेजा गया। वहां उसे मोहम्मद तस्लीम नामक शख्स मिला। उसने बताया कि मसजद और शारीरिक संबंध बनाने के दो हजारा रुपये लगेगे। इस पर हवलदार ने पुलिस टीम को इशारा कर दिया। पुलिस टीम ने वहां छापा मारकर तस्लीम की जेब से दो

हजार रुपये के नोट बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मामले में टीम को सूचना मिली थी कि पहाड़गांज के एक क्लब में महिलाओं द्वारा अश्लील डांस किया जाता है। इस पर पुलिस ने क्लब पर छापा मारा जहां तीन लड़कियां अश्लील डांस कर रही थीं। वहीं 17 ग्राहक बैठकर शराब पी रहे थे। घटना को लेकर क्लब के मालिक से पूछताछ की जा रही है। पहाड़गांज इलाके में अलग-अलग क्लब के भीतर चल रहे अश्लील डांस करने को लेकर दो माह के भीतर तीसरी बार छापा मारा गया है। बीते अक्टूबर में फ़ाइम ब्रांच ने यहां के एक क्लब में छापा मारा था जहां पर लड़कियां अश्लील डांस कर रही थीं। इसके बाद अक्टूबर माह में ही मध्य जिला पुलिस को टीम ने पहाड़गांज इलाके के एक क्लब में छापा मारकर अश्लील डांस करते हुए लड़कियों को पकड़ा था।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गढ़ें पत्रकारिता का स्वर्णिम काल : हरिवंश

आईआईएमसी के शैक्षणिक सत्र 2022-23 का शुभारंभ, 21 से 25 नवंबर तक आयोजित होगा सत्रारंभ समारोह

प्रफुल्ल राय/गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के शैक्षणिक सत्र 2022-23 का सोमवार को शुभारंभ करते हुए राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने कहा कि आजादी के पहले भारतीय पत्रकारिता का स्वर्णिम काल रहा है। उस समय के पत्रकार इन्वेस्टिगटिव के साथ-साथ इन्वेस्टर भी थे। सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने पत्रकारिता के स्वर्णिम काल का निर्माण किया। आज के टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आसानी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और पत्रकारिता एक नया स्वर्णिम काल गढ़ सकते हैं। इस अवसर पर भारत सरकार के सूचना आयुक्त श्री उदय माहुरकर, आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी, डीन (अकादमिक) प्रो. गोविंद सिंह, कार्यक्रम के संयोजक एवं उर्दू पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रो. प्रमोद कुमार सहित आईआईएमसी के सभी केंद्रों के संकाय सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।



अमृतकाल के संकल्प और मीडिया विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री हरिवंश ने कहा कि जो चीजें पहले सौ वर्षों में बदलती थीं, आज उसके लिए दो दिन का समय भी नहीं लगता। आज आप मामूली संसाधनों के साथ मीडिया स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि जून में संघर्ष से कठिन सृजन होता है। यह कठिन तप और साधना है। युवाओं के तप से ही भारत का भविष्य तय होगा। आजादी के सौवें वर्ष में भारत की क्या तस्वीर होगी, वो युवाओं के सपनों और संकल्पों से तय होगा। राज्यसभा के उपसभापति के अनुसार पत्रकारिता का दौर अब पूरी



तरह बदल गया है। आपको चुनौतियों में से रास्ता निकालना है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चुनौतियों के बीच आज युवाओं के पास अनंत अवसर हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव का सबसे बड़ा अध्याय ईसान लिख सकता है। आज प्रिंट, रेडियो और टीवी के अलावा डिजिटल मीडिया, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, ऑडियो, पांडकार, मल्टीमीडिया, डाटा साइंस और मीडिया शिक्षण जैसे अनेकों विकल्प मौजूद हैं।

भारत के पुनर्जागरण का काल : माहुरकर

इस अवसर पर भारत सरकार के सूचना आयुक्त श्री उदय माहुरकर ने कहा कि देश में डिजिटल क्रांति से विकास की नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये भारत के पुनर्जागरण का काल है। उन्होंने कहा

कि हम जहां एकरफर नेशन फर्स्ट की डिग्लोमेसी कर रहे हैं, वहीं भारत की सांफ्ट पावर ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। श्री माहुरकर के अनुसार टीआरपी बेस्ट जर्नलिज्म मीडिया और समाज दोनों के लिए बहुत मुकसानदायक है।

संकटों का सामना करने में सक्षम है हिन्दुस्तानी : प्रो. द्विवेदी

नवागत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि आप सभी के लिए ये साधना और समर्पण का साल है। उन्होंने कहा कि हम वही बनते हैं, जो हम सोचते हैं। पिछले 75 वर्षों में हमने शानदार यात्रा की है। आने वाले 25 वर्षों में हमें विश्व मंच पर भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। प्रो. द्विवेदी के अनुसार इस विश्व में हिन्दुस्तानी अकेले हैं, जो हर स्थिति में समन्वय बैठा लेते हैं। दुनिया मानती है कि किसी भी तरह के संकटों का सामना करने में हिन्दुस्तानी सक्षम हैं। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में अमृतकाल : पंच प्रण और

मीडिया विषय पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष डॉ. जे.के. बजाज, पेंसिफिक विश्वविद्यालय के योजना एवं नियंत्रण के युप प्रेसिडेंट प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज के डीन प्रो. मजहर आसिफ एवं 'ऑर्गनाइजर' के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

शुभारंभ समारोह के अंतिम सत्र में मीडिया उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य विषय पर 'न्यूज 24' की प्रधान संपादक श्रीमती अनुराधा प्रसाद, बिजनेस वर्ल्ड के अध्यक्ष एवं प्रधान संपादक डॉ. अनुराग बत्रा, NEWJ के संस्थापक, सीईओ एवं प्रधान संपादक श्री शलभ उपाध्याय एवं डीबीजी टेक्नोलॉजी (भारत) के कार्यकारी निदेशक डॉ. अभिषेक गार्ग ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रो. अनुभूति यादव द्वारा संपादित पुस्तक न्यू मीडिया जर्नलिज्म एवं प्रो. प्रमोद कुमार द्वारा लिखित पुस्तक मीडियाकर्म : योग्यता और यथार्थ का भी विमोचन किया गया।

बिना पुलिसकर्मियों के बैरिकेड लगाने पर हाईकोर्ट सख्त

दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेजा अवमानना का नोटिस

नई दिल्ली। आदेश के बावजूद राजधानी में बेतरतीब तरीके से पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बगैर बैरिकेड लगाए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अवमानना का नोटिस जारी किया है।



जस्टिस सचिन दत्ता ने पुलिस कमिश्नर को पूछा है कि 12 मई, 2022 को पारित आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? हाईकोर्ट ने आदेश का

बेंच ने सभी पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता संगठन जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी से भी कहा कि यदि वह भी मामले में कोई जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च, 2023 को होगी। याचिकाकर्ता सोसाइटी ने याचिका दाखिल कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था।

बाय टब में डूबने से एक वर्षीय बच्ची की मौत

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेंस्ट में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक साल की मासूम की मौत हो गई। गौर सिटी के एक फ्लैट में एक साल की बच्ची की बाथ टब में नहाते समय डूबने की वजह से मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना बिसरख के एसओ उमेश बहदुर सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह को यथार्थ अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि एक साल की आरणा सक्सेना की बाथ टब में नहाते समय डूबने की वजह से मौत हो गई। आरणा सक्सेना अपनी पिता विशाल सक्सेना के साथ गौर सिटी के 11 एवेन्यू में रहती थी। जानकारों के मुताबिक मासूम बच्ची घर पर ही बाथ टब में नहा रही थी और इसी दौरान डूब गई।

‘आप’ को बदनाम करने के लिए भाजपा रोज निकाल रही फर्जी स्टिंग

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि चुनाव हारने की बौखलाहट में भाजपा दिनभर फर्जी स्टिंग निकालती रहती है। आप के वरिष्ठ नेता एवं विधायक दिलीप पांडेय ने आज यहाँ कहा कि भाजपा रोज-रोज जो स्टिंग जारी कर रही है जो बिल्कुल फर्जी हैं। इससे एक

चीज तय हो चुकी है कि भाजपा निगम का चुनाव बुरी तरह हार रही है। चुनाव हारने की बौखलाहट में वह दिनभर फर्जी स्टिंग निकालते रहते हैं। कहीं भी बैठकर वीडियो बना लेते हैं।

उन्होंने कहा कि जनता भाजपा से पूछ रही है कि 15 सालों में आपने किया क्या है। हकीकत तो यह है कि

यदि भाजपा ने 15 सालों में वाकई कुछ किया होता तो यह फर्जी स्टिंग निकालने की नीबत नहीं आती। आज के समय में सबसे ज्यादा मांग आम आदमी पार्टी की है।

उन्होंने कहा कि वीडियो में एक चीज साफ हो रही है कि पैसे से टिकट नहीं मिली। आप ने किसी को भी पैसे

अंतरराष्ट्रीय मिथिला विभूति बाबा विद्यापति स्मृतपर्व समारोह का आयोजन 18 दिसम्बर को

विवेक राय/गौरवशाली भारत

नोएडा। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद् के वेंसर शैलेन्द्र मिश्र के अध्यक्षता में नोएडा सेक्टर-19, सनातन धर्म मन्दिर सभागार में दिनांक 20.11.2022 को हुआ जिसमें विगत कइयक वर्षों की भर्ति इस वर्ष भी अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद् के तत्वाधान में दिनांक 18 दिसम्बर 2022 को रविवार सांय काल 4 बजे से ईदिरा गाँधी कला केंद्र सेक्टर -6 नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तरप्रदेश में अंतरराष्ट्रीय मिथिला विभूति बाबा विद्यापति स्मृतपर्व समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर मैथिलि, साहित्य एवं संस्कृति की झाँकी एवं कवि सम्मेलन प्रस्तुत करने तथा उसकी गौरवशाली परम्परा से इस अंचल के लोगों अवगत करने के उद्देश्य से स्मारिका का विमोचन एवं साहित्यिक कार्यक्रम होगा जिसमें मिथिला के सुप्रसिद्ध कवि गण - श्रीमती कुमकुम झा, श्रीमती निवेदिता मिश्रा, श्रीमती सविता सोनी, श्री विमल मिश्रा, प्रेम शंकर झा पवन, मुकेश



आनंद एवं कलाकार गण में श्री विकास झा, जुली झा, धीरज मिश्रा, रानी झा, मिथिला केशरी मनोज मनोहर, स्वाति झा एवं मंच संचालन श्री राधे पांडे करीं एवं कार्यक्रम में प्रकाण्डविद्वान गण, केंद्रीय मंत्री गण, राज्य मंत्री गण सांसद ,एवं विधायकगण सिरकत करेंगे इस कार्यक्रम का कार्यकारणी इस प्रकार रहेगा। शैलेन्द्र मिश्रा, प्रेम शंकर झा ,मिथिला केशरी मनोज मनोहर, विनोद झा , विजय सिंह, विजय झा, आमोद चौधरी, कृपाल मिश्रा, चंद्रमोहन झा ,कृष्ण मुरारी शर्मा, उषेन्द्र मिश्र, मुकेश आनंद , जयराम चौधरी, दीपक झा ,मोहन जी झा ,विनय झा ,रवि सिंह ,उगन मिश्र ,रविंद्र नाथ झा, पंकज झा ,मनोज झा ,दिवाकर कांत झा, दीपक मिश्र , शंजय चौधरी, मीणा वाली ,कुमकुम झा ,पूतम सिन्हा, वैजू मिश्रा

रविंद्र मिश्रा, राजीव झा, मनहरो चौधरी ,शकील अहमद, जे .पी मंडल को बनाया गया है एवं और भी बनाया जायेगा एवं कार्यक्रम में कुछ विशेष लोगो को मिथिला लाने से सम्मानित किया जायेगा एवं स्मारिका में जिनको विज्ञापन देना है दे सकते है उसका विवरण सलंगहै एवं सदस्य भी बनाया जा रहा है। आजीवन सदस्यता शुल्क 1100 /- रूपया है एवं साधारण सदस्य 500 /- रूपया है एवं सहयोग राशि जितना आप दे सकते बैंक अकाउंट नम्बर - 1577050001328 , IFSC ICIC0001577 आईसीआईसीआई बैंक सेक्टर - 30 नोएडा है आप सीधे बैंक में देकर रशीद प्राप्त कर सकते है एवं पीटीएम नम्बर -99771963798 है आप पीटीएम भी कर सकते है।

प्राधिकरण की ओर से 75 बिल्डर परियोजनाओं को जारी हो रहे रिकवरी नोटिस

15 दिन का टिका समय, 9 हजार करोड़ रुपए है बकाया, इसके बाद जब्त होगी सांपति

नोएडा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण दो दिन में 75 बिल्डर परियोजनाओं को बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। इन बिल्डरों पर 9 हजार करोड़ रुपए बकाया है। वैसे कुल बकाया 12 हजार करोड़ रुपए का है। इसमें 3 हजार करोड़ रुपए एनसीएलटी में चल रहे मामलों के हैं। इस वसूली के लिए नए विकल्प देखे जायेंगे।



अदालतों में मामले चल रहे हैं। करीब 12 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को निष्प्रभावी करते हुए नोएडा प्राधिकरण को ब्याज दर के हिसाब से बिल्डरों को बकाये का

भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके बाद प्राधिकरण ने बकाया धनराशि का आकलन शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण ने बकाए की गणना 11.5 प्रतिशत

साधारण ब्याज और तीन प्रतिशत दंड ब्याज के साथ करवाई है। यह दरें 30 जून 2020 तक लगाई गईं हैं। इसके बाद 1 जुलाई 2020 से गणना नौ जून 2020 को आए शासनआदेश के मुताबिक की गई हैं। शासनआदेश में बकाये पर एमसीएलआर के मुताबिक ब्याज दरें और एक प्रतिशत प्रशासकीय शुल्क लेने के निर्देश जारी हुए थे। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि गुरु हाउसिंग की 116 परियोजनाएँ हैं। इनमें से करीब 16 परियोजनाओं

पर कोई बकाया नहीं है, जबकि 100 परियोजनाओं पर बकाया चल रहा है। इनमें से करीब 75 परियोजनाओं पर प्राधिकरण का 9 हजार करोड़ रुपए बकाया है। इन परियोजनाओं के बिल्डरों को बकाया देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। पैसे जमा करने के साथ ही करीब 8 हजार बायर्स को राहत मिलेगी। प्राधिकरण की ओर से उनकी रजिस्ट्री शुरू कर दी जाएगी। इसमें एनसीएलटी में चल रहे प्रकरण और आम्रपाली व यूनिटेक को शामिल नहीं किया गया है।

शार्ट न्यूज

अल्काराज, नडाल ने एटीपी रैंकिंग में ऐतिहासिक शीर्ष दो स्थान हासिल किये

लंदन। स्पेन के कार्लोस अल्काराज और राफेल नडाल अपने देश के लिये इतिहास रचते हुए टेनिस पेशेवर संघ (एटीपी) की रैंकिंग में इस साल क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। एटीपी की सोमवार की रैंकिंग के अनुसार अल्काराज 6820 अंकों के साथ पहले पायदान पर हैं, जबकि नडाल 6020 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। स्पेन ने पहली बार एटीपी रैंकिंग के शीर्ष दो स्थान हासिल किये हैं। स्पेन की इस जोड़ी ने 2022 के चार में से तीन ग्रैंड स्लैम अपने नाम किये। युवा सनसनी अल्काराज ने अमेरिकी ओपन का खिताब जीता जबकि 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल ने ऑस्ट्रेलियाई और फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। नडाल के सबसे करीबी प्रतिद्वंदी और 21 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच इस साल रैंकिंग में पांचवें स्थान पर रहे, हालांकि उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर छठवाँ एटीपी फाइनल्स ट्राँफी जीत ली। दूसरी ओर, रूड इस साल की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि यूानन के स्टेफानोस सितसिपास एक पायदान फिसलकर चौथी रैंकिंग पर आ गये।

फवाद, यासिर इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला के लिये टीम से बाहर

रावलपिंडी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ दिसंबर में होने वाली तीन मैचों की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप श्रृंखला के लिये 18–सदस्यीय टीम की घोषणा सोमवार को की जिसमें फवाद आलम और यासिर शाह का नाम शामिल नहीं किया गया है। फवाद और यासिर के अलावा हसन अली और शाहीन अफरीदी भी टीम का हिस्सा नहीं हैं। अफरीदी ने हाल ही में अपने अपींडिक्स की सर्जरी करवाई है, जबकि वह घुटने की चोट से भी उभर रहे हैं। फवाद ने 2021 में नौ टेस्ट मैच खेलकर 57.10 की औसत से 571 रन बनाये लेकिन वह इस साल अपने शानदार प्रदर्शन को जारी नहीं रख सके। फवाद ने 2022 के चार टेस्ट मैचों में सिर्फ 58 रन बनाये जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। हसन अली ने भी अपने पिछले चार टेस्ट मैचों में सिर्फ पांच विकेट लिये, जिसके कारण उनके स्थान पर युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद अली को टीम में तलब किया गया है। तीन मैचों की इस श्रृंखला के लिये ‘मिस्ट्री स्पिनर’ अब्बार अहमद भी 18–सदस्यीय स्काड में शामिल हैं। सीमित ओवर क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान आकर्षित कर चुके हारिस उर्फ इस सीरीज में पदार्पण कर सफल हैं। शाहीन की गैर–मौजूदगी में उनसे पाकिस्तानी गेंदबाजी की अगुवाई करने की उम्मीद है।

तीसरा टी20 नहीं खेलेंगे विलियम्सन

नेपियर। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन डॉक्टर के साथ पूर्व नियोजित भेंट के कारण भारत के खिलाफ मंगलवार को होने वाले तीसरे टी20 मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने सोमवार को यह जानकारी दी। एनजेडसी ने बताया कि उनकी गैर–मौजूदगी में टिम साउदी न्यूजीलैंड की कप्तान संभालेंगे, जबकि मार्क चैपमैन को भी टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा, केन कुछ समय से डॉक्टर से मिलने की योजना बना रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे कार्यक्रम के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। स्टीड ने कहा, हमारे खिलाड़ियों और स्टाफ का स्वास्थ्य हमारे लिये सबसे ऊपर है, और हम उन्हें ऑकलैंड (पहला एकदिवसीय मैच) में देखने के लिए उत्सुक हैं। स्टीड ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल जांच का विलियम्सन की कोहनी से कोई लेना–देना नहीं है, जिसने उन्हें समय–समय पर परेशान किया है। एनजेडसी ने बताया कि विलियम्सन शुरुवार को ऑकलैंड में होने वाले पहले एकदिवसीय मैच में टीम का हिस्सा होंगे।

इक्राडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से हरया

दोहा। इक्राडोर ने इनर वेलेंसिया (दो गोल) को बर्दौलत फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन मैच में रविवार को मेज़बान कतर को 2–0 से मात दी। वेलेंसिया ने 16वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया, जबकि 31वें मिनट में एक और गोल जमाकर अपनी टीम की पहला टोपनी कर दी। कतर ने शुरुआती हाफ में बुरी तरह पिछड़ने के बाद दूसरे हाफ में अच्छा खेल दिखाते हुए विश्वश्री टीम को और नुकसान नहीं करने दिया, हालांकि वे खुद भी गोल नहीं कर सके। कतर के लिए मैच के 86वें मिनट में एक मौका भी बना, जब मुंटारी बॉल के साथ इक्राडोर के गोल की तरह बढ़ रहे थे। उन्होंने गोलकीपर को चकमा देकर बॉल को गोल की तरफ मारा लेकिन वह नेट के ऊपर से निकल गई। फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार मेजबान टीम ने अपने अभियान को शुरुआत हार के साथ की है। इक्राडोर इस जीत के साथ तीन अंक हासिल करके ग्रुप–ए की तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है।

चमन सीमा एक सप्ताह से अधिक समय के बाद फिर से खुलेगी

क्रेटा। अफगानिस्तान से सटी चमन सीमा को फिर से खोलने के लिए पाकिस्तान सशत सहमत हो गया है। फ्रेंडशिप गेट पर फॉटियर कॉर्प्स के अधिकारियों पर अफगान की ओर से गोलीबारी के एक सप्ताह से अधिक समय से बंद है। चमन के उपायुक्त अब्दुल हमीद जेहरी ने रविवार को मीडिया को बताया कि सीमा खोलने का फैसला पाकिस्तानी और अफगान अधिकारियों के बीच हुई बैठक के दौरान किया गया। दोनों देशों के बीच सीमा को खोलने और वातचक्र करने के बाद इस निर्णय से चमन की नागरिक–सैन्य संपर्क समिति को अवगत कराया गया है, जिसने सोमवार से व्यापार और यात्रा के लिए सीमा खोलने पर सहमति व्यक्त की है। अधिकारियों ने कहा इसके साथ ही संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) और पाकिस्तान सीमा शुल्क के आब्रजन कार्यालय भी खोले जाएंगे। जेहरी ने कहा कि बैठक के दौरान अफगान तालिबान के अधिकारियों ने 13 नवंबर को घटना पर दुख व्यक्त किया और पाकिस्तानी अधिकारियों को आश्वासन दिया कि घटना को अंजाम देने वाले ‘आतंकवादियों’ को गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

नेपाल के बैताड़ी जिले में जीप गहरी खाई में गिरी, तीन की मौत

काठमांडू । नेपाल के बैताड़ी जिले के पाटन में सोमवार सुबह एक जीप के गहरी खाई में गिर जाने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी। बैताड़ी जिला पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता पुलिस निरीक्षक लोकराज जोशी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को ले जा रही जीप दशरथचंद राजमार्ग के पाटन नगर पालिका–4 डुम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जिला मुख्यालय पर मतपेटियां पहुंचाकर लौट रही जीप सड़क से फिसल कर करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गयी। उन्होंने बताया कि अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पायी है।

‘जिहदी ब्राइड’ को नागरिकता देने पर सुनवाई

लंदन। साल 2019 में आतंकी संगठन आईएसआईएस बेशक हार गया। लेकिन, उससे जुड़े कई मामले अब भी खत्म होने को तैयार नहीं हैं। आईएसआईएस में शामिल होने के बाद ब्रिटेन की नागरिकता गवां चुकी महिला शमिमा बेगम ने खुद के बेगुनाह होने का दावा किया है। उसने सोमवार को ब्रिटेन में एक याचिका दायित्व कर खुद को मानव तस्करी का शिकार बताया। शमिमा ब्रिटेन की नागरिकता फिर से हासिल करने की लगातार कोशिश कर रही है। पिछले साल ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने एक कमिशन ने उसकी नागरिकता के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने फिर से एक याचिका दायर की है। बेगम के वकील तसनिम अकूजी ने न्यूज एजेंसीAFP को बताया कि अब सारी सुनवाई इस पर केंद्रित होगी कि क्या वो मानव तस्करी का शिकार हुई थी। जिसे नागरिकता छीनने से पहले ध्यान में नहीं रखा गया था। शमीमा बेगम के मामले में दो मुख्य पक्ष हैं।

हरियाणा ने जीती छठवीं भारतीय बधिर् टी20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप

एजेंसी
आगरा। हरियाणा बधिर् क्रिकेट टीम ने सोमवार को छठवीं बधिर् टी20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में महाराष्ट्र को सात विकेट से हराकर चैंपियनशिप की ट्राँफी अपने नाम कर ली। भारतीय बधिर् क्रिकेट संघ (आईडीसीए) और विह्व पूनावाला फाउंडेशन द्वारा यहाँएकलव्य स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता की विजेता टीम हरियाणा को ट्राँफी के साथ स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। उपविजेता महाराष्ट्र को ट्राँफी एवं पदकों के नवाजा गया। हरियाणा के खिलाड़ी अमित यादव को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जबकि उनके साथी आकाश सिंह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। कुलदीप सिंह को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश मंदिर के महंत निर्मल गिरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आईडीसीए टीमों के अनुभवी कोच एम पी सिंह समापन समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आईडीसीए के अध्यक्ष सुमित जैन ने कहा, यह एक बड़ा टूर्नामेंट था। मैं

हरियाणा ने 12 वर्षों बाद नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाया गोल्ड



एजेंसी
सिरसा। 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने राजस्थान को 3–0 से पराजित कर प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक पर अपना अधिकार कर लिया। गत 14 नवंबर से 19 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में आयोजित इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम में कप्तान लवी चौधरी के नेतृत्व में खेल रहे खिलाड़ियों ने शुरू से ही अपने शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा और अंत तक इसे बनाए रखा। गौरतलब है कि हरियाणा जूनियर वॉलीबॉल की टीम ने इससे पूर्व 2010 में स्वर्ण जीतकर प्रतियोगिता में सर्वजिता बनने का गौरव प्राप्त किया था। इस प्रकार से 12 वर्षों के एक लंबे अंतराल के पश्चात हरियाणा वालीबाल की जूनियर टीम ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए स्वर्ण जीतकर हरियाणा को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। उपरोक्त जानकारी देते हुए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव सुबह सिंह ने बताया कि आयोजित प्रतियोगिता के दौरान खेले गए लीग मैचों में हरियाणा की टीम ने पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, और केरल की टीमों को पराजित कर प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के फ़ाटर्न फाइनल के मैच में हरियाणा की टीम ने गुजरात को 3–0 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमी फाइनल के मैच में हरियाणा ने जम्मू कश्मीर को 3–0 से पराजित कर प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया।



आगरा में इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिये मेजबान उत्तर प्रदेश बधिर् क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और प्रबंध समिति के

इग्नपिलकर, गोलकीपरों को विशेष कोटिंग की जरूरत

नयी दिल्ली। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिकी ने आधुनिक हॉकी की बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए देशभर की हॉकी अकादमियों से इग्नपिलकर और गोलकीपरों को विशेष कोचिंग देने का अनुरोध किया है। हॉकी इंडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। तिकी ने हॉकी इंडिया की सदस्य इकाइयों को भेजे गये हालिया संदेश में इन दो कौशलों में विशेषज्ञता प्राप्त युवा कर्मीदों के प्रतिभा पूल तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तिकी ने कहा, ड्रैग पिलकिंग तकनीक आधुनिक हॉकी के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक बन गयी है। एक सफल पेनल्टी कॉर्नर की खुशी जिसमें गेंद रक्षकों की दीवार के पार गोली की रफ्तार से भेजी जाती है, हमेशा खेल के सबसे रोमांचक पलों में से एक मानी जाती है। इसी तरह, एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और चुस्त गोलकीपर होने का महत्व बढ़ रहा है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत की हालिया सफलता का श्रेय पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया को दिया जा सकता है।

इंडोनेशिया में भूकंप, 56 की मौत

700 से ज्यादा लोग घायल

दहशत में लोगों ने इमारतें खाली कीं

जकार्ता। इंडोनेशिया में सोमवार को आए भूकंप में 56 लोगों की मौत हो गई। 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। राजधानी जकार्ता समेत आसपास के इलाकों में लोग दहशत में बाहर निकल आए। इमारतों को खाली करवा दिया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 5.6 थी और इसका सेंटर जावा के सियांजुर में था। एक अधिकारी ने बताया कि एक ही अस्पताल में 20 लोगों की मौत हुई है। इससे आशंका जाहिर की जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

इमारतें खाली कराई गईं, आपटर शॉक्स की आशंका

सोशल मीडिया पर भूकंप के कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इनमें टूटी हुई इमारतें, मलबा और क्षतिग्रस्त कारें नजर आ रही हैं। एक अफसर ने कहा- हम लोगों से अपील करते हैं कि

मैक्सिको में 53 बैग में इंसानों के टुकड़े मिले

एक महीने पहले मुंह में इंसानी खोपड़ी ले जाता दिखा था

मैक्सिको सिटी। मैक्सिको में एक बार फिर रॉगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक कुत्ते को सड़क पर इंसान का कटा हुआ हाथ लेकर दौड़ते देखा गया। एक महीने में यह तीसरी बार है, जब कुत्तों को मानव शरीर के अंगों के साथ घूमते हुए देखा गया। पुलिस का कहना है इन सभी मामलों के पीछे ड्रग माफिया का हाथ है। इससे पहले अक्टूबर के अंत में एक कुत्ते को इंसान का कटा सिर मुंह में दबाकर भागते हुए देखा गया था। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो अधिकारियों को मानव शरीर के टुकड़ों के साथ 53 बैग मिले। हालांकि लाशों की पहचान करने में पुलिस असफल रही।

मर्डर वाली जगह से कुत्ते ने उठाई खोपड़ी

पुलिस ने जब मामले की जांच कि तो पता चला कि इस पूरे मामले के पीछे ड्रग माफिया का हाथ है। एक व्यक्ति का मर्डर करके उसकी लाश को ड्रस्करे पास छोड़ दिया गया। वहां पर धमकी

उनके आभारी हैं। देश के 17 राज्यों के प्रशासनों का आभार जिन्होंने अपनी टीमों को सहयोग दिया। विजेता हरियाणा टीम और उपविजेता महाराष्ट्र टीम को बधाई।

विह्व पूनावाला फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जसविंदर नारां ने कहा, हम बधिर्ों को राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए आईडीसीए के साथ सहयोग करके खुश हैं। खेलों में लोगों को प्रेरित करने और उन्हें जोड़ने की शक्ति होती है। भारतीय बधिर् क्रिकेट संघ के प्रयोोजक के रूप में हम देश के विकलांग युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं।

आईडीसीए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोमा बलवानी ने कहा, मैं इस विशाल टूर्नामेंट के स्तर से प्रभावित हूं।

आईडीसीए के अध्यक्ष सुमित जैन को 350 प्रतिभाशाली बधिर् क्रिकेट खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ खेलने के लिये लाने और यह मंच प्रदान करने के लिये बधाई। यह टूर्नामेंट जीत और हार से बढकर है। आज यहां हर खिलाड़ी नायक है और हमें उन सभी पर गर्व है जो समाज में अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विजेता हरियाणा टीम और उपविजेता महाराष्ट्र टीम को बहुत–बहुत बधाई।

जगदीशन, सुदर्शन के तूफान में बह गया अरुणाचल



पारियों में 114 नबाद, 107, 168 और 128 रन बनाये थे। जगदीशन ने 277 रन के स्कोर के साथ लिस्ट–ए क्रिकेट में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का अली ब्राउन (268) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ब्राउन ने 2002 में सरी के लिये खेलते हुए सैमोर्गन के खिलाफ यह स्कोर बनाया था। जगदीशन और सुदर्शन ने लिस्ट–ए क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिये सबसे बड़ी साझेदारी (416) का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। दिन का आकर्षण हालांकि जगदीशन ही रहे। जगदीशन से पहले देवदत्त पडिक्कल एकमात्र भारतीय हैं, जिन्होंने लिस्ट–ए क्रिकेट में लगातार चार शतक जड़े हैं। अपने पांच शतकों के साथ जगदीशन ने इतिहास की किताबों में पडिक्कल के साथ–साथ श्रीलंका के कुमार संगाकारा और दक्षिण अफ्रीका के अल्वीरो पीटरसन की भी पीछे छोड़ दिया है। संगाकारा 2015 में एकदिवसीय विश्व कप के दौरान यह कीर्तिमान रचने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि पीटरसन ने दक्षिण अफ्रीका में हाईवेल्ड लार्सस के लिए खेलते हुए इस उपलब्धि को हासिल किया था।

युद्ध रोकने और शांति पर रहा जोर

बाली। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में आयोजित हुआ जो 20 शिखर सम्मेलन बहुत अक्रामक और शीत युद्ध की छत्रछाया में रहा। रूस–यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका–चीन तनाव दोनों जो 20 देशों को वार्षिक बैठक में हावी रहे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता एजेंडे में रखी गई थी। संघर्ष के कारण उत्पन्न हुए भू–राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी प्रभाव, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें शामिल हैं, शिखर सम्मेलन की प्रमुख चिंताएं रही, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर हावी दिखीं। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्की ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। श्री जेलेन्स्की ने रूस से अपने सैनिकों को वापस लेने और युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया, लेकिन उन शांति प्रस्तावों को खारिज किया जो यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीयता और स्वतंत्रता के लिए घातक है। शिखर सम्मेलन के समापन में एक संयुक्त बयान जारी कर कहा गया ५ आज का समय युद्ध के लिए नहीं होना चाहिए५ और परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग करने की धमकी ५ अस्वीकार्य५ है – यूक्रेन संकट बढ़ने पर परमाणु विकल्प का सहारा लेने वाली पुतिन की धमकी के संदर्भ में। इस बयान के माध्यम से मास्को को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया गया।

आस्ट्रेलिया : विज्ञान प्रयोगशाला में गलत प्रयोग से स्कूली छात्र हुए घायल

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर के एक प्राथमिक स्कूल में विज्ञान के प्रयोगशाला में गलत प्रयोग करने से कई छात्र घायल हो गए। यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी। रिपोर्टों के अनुसार, एक छात्र गंभीर रूप से जल गया जिसे एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल में भर्ती किया गया और कुछ छात्र मामूली रूप से घायल हुए। विज्ञान प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट और मिथाइलेटेड स्प्रिट का उपयोग किया गया था। यह घटना सोमवार को मैनली वेस्ट पब्लिक स्कूल में हुई। एक स्थानीय निवासी ने सिडनी मार्निंग हेल्थडक को बताया कि एक शिक्षक ने विद्यालय के बाहर जमा लोगों को इस घटना की जानकारी दी। शिक्षक ने बताया कि बच्चे विज्ञान का प्रयोग कर रहे थे और इसी दौरान कुछ गलतियां हो गयीं और कुछ बच्चे रासायन से जल गये।

नेपाल में शांतिपूर्ण तरीके से करीब 61 फीसदी हुआ मतदान

काठमांडू । नेपाल में संसद और सात प्रांतीय विधानसभाओं के नये प्रतिनिधि के चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 61 फीसदी मतदाताओं ने अपने मतार्थिकार का इस्तेमाल किया। आयोग ने कहा कि यह अनुमान प्रारंभिक आंकड़ों पर आधारित है और अंतिम आंकड़े मिलने के बाद इसमें एक या दो प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। चुनाव में कुल 1,79,88,570 मतदाता मतदान करने के पात्र थे। चुनाव पर्यवेक्षकों का मानना है कि कि इस बार मतदाताओं की हताशा स्पष्ट तौर पर देखी जा रही थी और प्रमुख दलों को निचले सदन की सीटों के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। गौरतलब है कि 13 मई के स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान प्रमुख दलों की निराशा भी स्पष्ट तौर पर देखी जा रही थी, जब मतदान 72 प्रतिशत से अधिक हुआ था। नेपाल में कल हुए मतदान में हालांकि कुछ जगहों पर विवाद और हिंसा की घटनाएं सामने आईं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत और कई अन्य घायल हुए था। अन्यथा चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। पुलिस ने उपद्रवियों को तितर–बितर करने के लिए रौतहाट, सिराहा, चिवन, डोलखा, बाजुरा और हुमला जिलों में हवा में गोली चलायी थी। चुनाव समाप्त होने के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश थपलिया ने कहा, हमें देश के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट हिंसा के दौरान बाजुरा में एक व्यक्ति की दुखद मौत और अन्य के घायल होने पर खेद है। उन्होंने कहा कि हम घायलों को आवश्यक उपचार प्रदान करवा रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं... से सुदृित एवं , ब्लाक नं 23 मकान नं 399 त्रिलोक पुरी दिल्ली -91 से प्रकाशित

संपादक: प्रवीण कुमार सिंह, आरएनआई नं. -DELHIN/2011/38334, किसी भी विवाद के लिए पीआरबी एक्ट अंतर्गत उत्तरदायी, टेलीफोन नं.: 011-26700510/11, ई-मेल : info@gauravshalibharat.com, समस्त विवादो का न्यायलय दिल्ली होगा



शॉपिंग के दौरान बचाने हैं पैसे तो फॉलो करें ये आसान टिप्स

शॉपिंग के दौरान अक्सर लोग अपने तय बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं, जो उनके बजट पर बुरा असर डालता है। इस स्थिति में उनके लिए महीने को मैनेज करना बड़ा टास्क बन जाता है। आपके साथ ऐसा न हो इसके लिए हम लाए हैं कुछ बेहतरीन टिप्स।

बनाएं लिस्ट
सबसे पहले तो इसकी लिस्ट बनाएं कि आपको क्या लेना है। लिस्ट का तरीका सिर्फ किराना लाने के लिए बल्कि कपड़ों आदि की शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपको अपने कपड़ों को एक बार अच्छे से देखना है और यह लिखना है कि आपके पास क्या नहीं है या किस तरह के कपड़ों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। यह फिल्टर उन चीजों पर बिना मतलब के खर्च से बचने में मदद करेगा।

कैरी करें सिर्फ कैश
लोग डिजिटल पैमेंट की ओर जा रहे हैं और हम कैश कैरी करें जी हां, अगर आपको अपने बजट में रहते हुए शॉपिंग करना है तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। जब खर्च करने के लिए एकसट्रा पैसे ही नहीं होंगे तो भला आप दूसरी चीजों पर खर्च ही कैसे कर सकेंगे

और यही चीज आपको फालतू के खर्चों से बचा लेगी।

एक जगह न अटकें
चाहे कपड़े लेने हों या फिर किराना, किसी एक जगह न अटकें और दूसरी जगहों पर भी इन चीजों को देखें। उदाहरण के लिए कपड़ों पर एक जगह जो जींस आपको 4000 की मिल रही है, वैसी ही जींस दूसरी जगह डिस्काउंट के साथ मिल सकती है या फिर दूसरे ब्रैंड में कम कीमत पर खरीदी जा सकती है। इसी तरह मान लीजिए अगर एक ब्रैंड का लोशन 340 रुपये का मिल रहा है तो हो सकता है दूसरे ब्रैंड के लोशन पर इसी कीमत में एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। इसलिए जितना हो सके पहले एक्सप्लोर जरूर करें।

बोरियत में कुछ भी करें लेकिन शॉपिंग नहीं
बोरियत होने पर गेम्स खेलें, मूवी देखें, कुकिंग करें कुछ भी करें लेकिन शॉपिंग नहीं। सबसे खतरनाक होती है इमोशनल शॉपिंग जो सबसे ज्यादा बिना मतलब का खर्चा करवाती है। इस तरह की शॉपिंग का एक और नुकसान यह भी होता है कि इस दौरान ली गई ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जिनका आप कभी यूज भी नहीं करेंगे।

ऑनलाइन देखें ऑफ़र
आजकल ज्यादातर ब्रैंड्स की वेबसाइट्स भी

होती हैं जहां से कपड़ों को ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। इन वेबसाइट्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी उपलब्ध होता है। ऐसे में आप चाहे तो स्टोर में कपड़ों को ट्राई कर सकती हैं और सही साइज मिल जाने पर उसे ऑनलाइन सर्व करें। अगर वहां ये सस्ते में मिल रहे हैं तो फिर वेबसाइट से ही इसे ऑर्डर करें।

शॉपिंग पार्टनर भी है अहम

हमें यकीन है आप में से कई लोगों ने कभी इस बात को सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपकी फिजूलखर्ची के लिए आपके साथ शॉपिंग पर गया शख्स भी जिम्मेदार हो सकता है। अगर वह आपको बार-बार नई चीज दिखाए और कहे



कि आप इसे ले लें क्योंकि यह अच्छा लगेगा, या फिर डिस्काउंट के चक्कर में ज्यादा चीजें लेने की सलाह दे तो बेहतर है कि अगली बार आप उसके साथ न जाएं। शॉपिंग पर ऐसे शख्स के साथ जाएं जो आपको फिजूलखर्ची से रोके और आपको जो लेना है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करवाए।



जा रहे हैं सब्जी लेने तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

सब्जी खरीदने की बात आती है तो ज्यादातर लोग बस दाम पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइस कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह फायदे का सौदा है। बल्कि आपको इन्हें खरीदने के दौरान ऐसी कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो सब्जी की मौजूदा क्वालिटी और वह कितनी जल्दी खराब हो जाएगी यह तय करते हैं।

सब्जी न हो कहीं से डेमेज

सब्जी जब लें तो उसे चारों ओर से पलटकर ध्यान से जरूर देखें। अगर उसमें जरा सा भी छेद या कट दिखाई देता है तो उसे न लें। ऐसी सब्जियों में कीड़े होने के चांस ज्यादा रहते हैं। वहीं अगर जो सब्जियां किसी हिस्से से दबी हुई हों खासतौर से टमाटर जैसी चीजें तो इनके जल्दी खराब होने का डर रहता है।

हल्का सा दबाकर देखें

टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, गाजर हो या कोई अन्य सब्जी, उसे दबाकर जरूर देखें। हल्के से दबाव से ही पता चल जाता है कि कहीं वह सब्जी अंदर से खराब तो नहीं है। हालांकि, पत्तेदार सब्जियों पर यह तरीका काम नहीं करता है।

जब बात आए पत्तेदार सब्जियों की

पत्तेदार सब्जियों में इतने वैरायटी होती है कि सभी पर एक तरीका काम नहीं करता है। हालांकि, कुछ कॉमन बातें हैं जिनका इन्हें लेने के दौरान ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान में रखें कि ऐसी पत्तेदार सब्जी न लें जो पानी में बहुत ज्यादा भीगी हो, इनके जल्दी खराब होने के डर रहता है। पालक, चाल भाजी जैसी सब्जियों को लेते वक़्त एक-एक पत्ते को ध्यान से देख लें क्योंकि इनके बीच में कीड़े हो सकते हैं। पत्ते पीले या बड़े हों तो उन्हें न लें क्योंकि उनमें स्वाद कम होता है।

सूंघकर देखें

मार्केट में पैकड मशरूम, कॉर्नस, स्प्राउटस जैसी चीजें मिलती हैं। इन्हें जब लें तो पैकेट को नाक से थोड़ी दूर पर रखते हुए उन्हें सूंघें। अगर वे पुराने होंगे तो उनकी स्मेल बदल चुकी होगी। ऐसे पैकेटस को न लें, नहीं तो बीमार हो सकते हैं।

उतना ही लें जितना इस्तेमाल हो जाए

कई ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना आप इस्तेमाल कर पाएं। फ्रिज में भी ये सब्जियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाती हैं। उदाहरण के लिए धनिया और टमाटर। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ज्यादा ले लें तो लेकिन अगर ये सिर्फ फ्रिज में ही रखी हैं तो तीन-चार दिन में ही ये खराब होना शुरू कर देंगी।



बेड के लिए परफेक्ट चादर खरीदने में काम आएंगी ये टिप्स



क्या आप मार्केट में नई बेडशीट लेने जाने के बारे में सोच रहे हैं अगर हां तो बेहतर होगा कि आप पहले नीचे दी गई जानकारी पढ़ें लें, ऐसा करने पर शायद आप ज्यादा बेहतर चादर का सिलेक्शन कर सकेंगे।

लोग आमतौर पर बेड के गद्दों को लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन जब बात आती है चादर की तो वे इस मामले को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छी नींद के लिए जितना जरूरी अच्छा गद्दा है उतनी ही जरूरी चादर भी है। आप अपने बेड के लिए कैसे सही चादर चुन सकते हैं इसमें नीचे दिए टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं। फैब्रिक का रखें ध्यान सबसे बड़ी और पहली बात होती है फैब्रिक का सही सिलेक्शन करना। यह इसलिए जरूरी होता है कि क्योंकि बेडशीट का कपड़ा आपके शरीर के संपर्क में आएगा इसलिए चादर का सिर्फ सुंदर होना नहीं बल्कि कंफर्टेबल होना भी जरूरी है। इस लिहाज से कॉटन की चादर बेस्ट फिट कही जा सकती है। कॉटन न सिर्फ स्किन के अगेंस्ट कंफर्टेबल रहता है बल्कि यह ब्रिदेबल फैब्रिक भी माना जाता है, जो नमी इकट्ठा नहीं करता।

साइज

बस यू ही चादर लेने न निकल पड़ें। आपका बेड कितने साइज का है और आपको साइड में कितनी चादर छोड़नी है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेडशीट सिलेक्ट करें। आमतौर पर अगर आप मार्केट से चादर लेते हैं तो पैकेट

पर ही साइज लिखा होता है, जो आपके काम को आसान कर सकता है। हालांकि, अगर आप बिना पैकेट वाली चादर लेते हैं तो नाप का ध्यान जरूर रखें।

वाइट- कलरफुल चादर

वाइट कलर की खासियत होती है कि यह शांत करने में मदद करता है। यही इफेक्ट सफेद चादर भी क्रिएट करती है। यह ज्यादा रिलैक्सिंग फीलिंग के साथ ही मूड को शांत करने में मदद करती है। वहीं कलरफुल चादर रूम में चियरफुल फील क्रिएट करती है। बात करें स्ट्राइप चादर की तो यह रूम को व्यवस्थित दिखाने में मदद करती है।

रिटर्न पॉलिसी

जी हां, इस बात को भूलकर भी इग्नोर न करें। कई बार होता है कि चादर लेने के बाद एक ही वॉश में सारे कलर उड़ जाते हैं। अच्छी कंपनीज अपने ग्राहकों को ऐसी स्थिति में चादर रिटर्न करने का भी ऑप्शन देती हैं क्योंकि यह क्वालिटी में खरे न उतरने वाली बात है। ऐसे में अगर आप ऐसी कंपनी की चादर ले लें जिसमें ऐसी रिटर्न पॉलिसी न हो तब तो आपकी चादर बस एक ही बार बिछाई जा सकेगी।